



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 3—दिसम्बर 9, 2011 (अग्रहायण 12, 1933)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 3—DECEMBER 9, 2011 (AGRAHAYANA 12, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	1437	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1169	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	15	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2203	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 3823
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *		भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *		भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *		भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 5941
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *		भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 975
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1437	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1169	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	15	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2203	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3823
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	5941
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	975
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 2011

सं. 112-प्रेज/2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निर्देश देते हैं कि इस सचिवालय की दिनांक 07 जून, 1989 की अधिसूचना सं. 50-प्रेज/89 के अंतर्गत 24 जून, 1989 के भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशित तथा समय-समय पर संशोधित राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक प्रदान करने से संबंधित नियमों में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :--

वीरता के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक

वर्तमान नियम 5 के उप-नियम (ड) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :--

“इस वीरता पुरस्कार के सभी प्राप्तकर्ता, उनके रैंक का ध्यान रखे बिना एक समान नगद भत्ता पाने के हकदार होंगे। पदक और पदक के बार के लिए नगद भत्ते की दर दिनांक 01.10.1997 से 200/- रु. (रुपये दो सौ) प्रतिमाह, दिनांक 06.12.1999 से 750/- रु. (रुपये सात सौ पचास) प्रतिमाह और दिनांक 29.08.2011 से 1500/- रु. (रुपये एक हजार पांच सौ) प्रतिमाह होगी।”

वीरता के लिए तटरक्षक पदक

वर्तमान नियम 13 के उप-नियम (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :--

“जब वीरता के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा तो राष्ट्रपति के तटरक्षक पदक के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन पदक और पदक के बार के साथ पदक प्राप्तकर्ता के रैंक को ध्यान में रखे बिना, दिनांक 01.10.1997 से 120/- रु. (रुपये एक सौ बीस) प्रतिमाह, दिनांक 06.12.1999 से 450/- रु. (रुपये चार सौ पचास) प्रतिमाह और दिनांक 29.08.2011 से 900/- रु. (रुपये नौ सौ) प्रतिमाह की दर से एक समान नगद भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस पर आने वाले खर्च तटरक्षक मुख्यालय के संबंधित विभाग के हेड से दिया जाएगा।”

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 17th November 2011

No. 112-Pres/2011—The President is pleased to direct that the following amendments shall be made in the rules governing the award of President's Tatrakshak Medal and Tatrakshak Medal published in Part-I, Section-1 of the Gazette of India on 24th June, 1989 vide this Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated the 7th June, 1989 and as amended from time to time :—

PRESIDENT'S TATRAKSHAK MEDAL FOR GALLANTRY

For the existing sub-rule (e) of rule (5), substitute the following :—

"All the recipients of this gallantry award shall be entitled to the monetary allowance on a uniform rate, irrespective of their ranks. The rate of monetary allowance for the Medal as also for the Bar to the Medal shall be Rs. 200/- (Rs. Two Hundred) per mensem w.e.f. 01.10.1997, Rs. 750/- (Rs. Seven Hundred Fifty) per mensem w.e.f. 06.12.1999 and Rs. 1500/- (Rs. One Thousand Five Hundred) per mensem w.e.f. 29.08.2011.

TATRAKSHAK MEDAL FOR GALLANTRY

For the existing sub-rule (a) of Rule 13, substitute the following :—

"When awarded for gallantry, the Medal as also the Bar to the Medal shall, subject to the conditions set for the President's Coast Guard Medal for Gallantry, carry monetary allowance Rs. 120/- (Rs. One Hundred Twenty) per mensem w.e.f. 01.10.1997, Rs. 450/- (Rs. Four Hundred Fifty) per mensem w.e.f. 06.12.1999 and Rs. 900/- (Rs. Nine Hundred) per mensem w.e.f. 29.08.2011. The expenditure incurred on this account shall be debitable to the relevant heads of Coast Guard Budget."

BARUN MITRA
Joint Secy.